

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 25th August, 1999.

NOTIFICATION

S.No. It is notified for general information that enterprise, listed at para (3) below has been approved by the Central Government for the purpose of section 10(23G) of the Income tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income tax Rules, 1962, for the assessment years 1999-2000, 2000-2001 and 2001-2002.


2. The approval is subject to the condition that -

- (i) the enterprise will conform to and comply with the provisions of section 10(23G) of the Income tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income tax Rules, 1962;
- (ii) the Central Government shall withdraw this approval if the enterprise:-

- (a) ceases to carry on infrastructure facility; or
- (b) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an accountant as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income tax Rules, 1962; or
- (c) fails to furnish the audit report as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income tax Rules, 1962.

3. The enterprise approved is:

M/s IRB Infrastructure Ltd., 501, Dattasharam Hindu Colony, Lane No.1, Dadar, Mumbai-400 014, for the project of construction of Major Bridge across Patalganj and Railway over bridge near village Kharpada on Panvel-Mhad-Panji Road on NH-17, Raigadh Distt. Maharashtra on BOT basis as per contract entered into with Govt. of India and Govt. of Maharashtra on 29th November, 1997.


(Kamlesh C. Varshney)

Under Secretary to the Govt. of India

Notification No. 11049 (F.No.205/45/98/ITA.II)

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi

Copy to:

1. The applicant.
2. All CCsIT and DgsIT
3. C&AG of India
4. Joint Secretary & Legal Advisor, Ministry of Law, New Delhi.
5. Addl. Secretary (Admn.), Deptt. of Revenue, New Delhi.
6. DIT(RSP&PR) (Bulletin Section), New Delhi

(Kamlesh C. Varshney)
Under Secretary to the Govt. of India

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 III में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त, 1999

अधिसूचना

क्रमांक सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा पैरा 131 में उल्लिखित उद्यम की आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10123-छ1 के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए अनुमोदित किया जाता है ।

2. उक्त अनुमोदन इस शर्त पर दिया जाता है कि :-

1.1. उद्यम आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10123-छ1 के उपबन्धों के अनुरूप होगा और उनका अनुपालन करेगा ।

1.1.1. केंद्र सरकार इस अनुमोदन को वापस ले लेगी यदि उद्यम :-


1.क। मूलभूत सुविधा को जारी रखना बंद कर देता है ; अथवा

1.ख। खाता-बहियों को रखने में और आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 ड. के उपनियम 171 द्वारा यथापेक्षित किसी लेखाकार द्वारा ऐसी बहियों की लेखा-परीक्षा कराने में असफल हो जाता है ; अथवा

1.ग। आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 ड. के उपनियम 171 द्वारा यथापेक्षित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है ।

3. अनुमोदन प्राप्त उद्यम का नाम निम्नानुसार है :-

मैसर्स आई आर बी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 501, दत्तात्रय हिन्दू कालोनी
लेन नं० - 1, दादर, मुम्बई-400 014, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के
साथ दिनांक 29 नवम्बर, 1997 को हुए समझौते के अनुसार बी ओ टी के आधार पर
बेशकत हाइवे 17, रायगढ़, जिला महाराष्ट्र पर पानवेल-म्हाड-पणजी रोड पर गाँव
छारवाड़ा के निकट पाटलमंज और रेलवे ओवर ब्रिज पर बड़े पुल के निर्माण की परियोजना
जवाब ।


। कमलेश सी वर्ण्य ।

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं० 11049

। फा० सं० 205/45/98-आयकर वि० II।

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी,

नई दिल्ली ।